



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 851]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2016/अग्रहायण 23, 1938

No. 851]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1133(अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, खाद्य निगम नियम, 1965 में संशोधन करने के एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

1. (1) ये नियम, खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 2016 कहे जाएँगे।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. खाद्य निगम नियम, 1965 में, --
 - (i) नियम 2 में, क्लाज (ईई) के लिए, निम्नलिखित क्लाज प्रतिस्थापित होंगे, यथा:-
“ (ईई) “प्रपत्र ” से आशय इन नियमों से जुड़ा प्रपत्र ”;
 - (ii) नियम 19, के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होंगे, यथा:-
“ 19. लेखों का वार्षिक विवरण तथा तुलन-पत्र:-
 - (1) निगम द्वारा लेखों का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा जिसमें फार्म 'ए' में तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, फार्म 'बी' में लेखा तथा फार्म 'सी' में नकदी प्रवाह का विवरण शामिल होगा।
 - (2) निगम के लेखों का वार्षिक विवरण, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट, 1949 (1949 का 38वां) की धारा 3 के तहत स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अनिवार्य लेखांकन मानकों का पालन करते हुए तैयार किया जाएगा तथा ऐसे लेखांकन मानकों से किसी भी विचलन का उल्लेख कंपनीज एक्ट, 2013 (2013 का 18वां) की अनुसूची III के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।”;
 - (iii) फार्म “ए”, फार्म “बी” और फार्म “सी” के लिए, निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित होंगे, यथा:-

“फार्म ‘ए’
[देखें नियम 19 (1)]
भारतीय खाद्य निगम
31 मार्च तक का तुलन-पत्र

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	नोट सं.	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में दिए गए आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में दिए गए आंकड़े
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	इक्विटी और देयताएँ			
क	अंशधारक निधि (क) अंश पूंजी (ख) सुरक्षित निधि और आधिक्य (ग) शेयर वारंट के प्रति प्राप्त राशि			
ख	शेयर आवेदन राशि जिसका आबंटन लंबित है			
ग	गैर-चालू देयताएँ (क) दीर्घ अवधि उधार (ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल) (ग) अन्य दीर्घ अवधि देयताएँ (घ) दीर्घ अवधि प्रावधान			
घ	चालू देयताएँ (क) अल्प अवधि उधार (ख) व्यापार संबंधी देनदारी (ग) अन्य चालू देयताएँ (घ) अल्प अवधि प्रावधान			
	योग(क+ख+ग+घ)			
II.	परिसंपत्तियां			
ड	गैर-चालू परिसंपत्तियां			
	(क) स्थायी परिसंपत्तियां (i) प्रत्यक्ष परिसंपत्तियां (ii) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां (iii) चल रहे पूंजीगत कार्य (iv) विकास के अधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां (ख) गैर-चालू निवेश (ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (घ) दीर्घ अवधि ऋण और अग्रिम (ड) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां			
च	चालू परिसंपत्तियां			
	(क) चालू निवेश (ख) वस्तुसूची (ग) व्यापारगत प्राप्तियां (घ) नकद और नकद समकक्ष (ड) अल्प अवधि ऋण और अग्रिम (च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां			
	योग (ड + च)			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां			
	सामान्य टिप्पणियां			

फॉर्म 'बी'

(कृपया नियम 19 (1) देखें)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि की तालिका

(रु. लाखों में)

क्र.स.	विवरण	नोट सं.	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क.	आय			
1.	राजस्व			
	क) बिक्री	1		
	ख) खाद्यान्न पर सब्सिडी	2		
	ग) अन्य प्राप्तियां	3		
	अन्य आय			
2.	वस्तु सूची में वद्धत/ (घटत)	4		
3.		5		
	योग (क)			
ख.	व्यय:			
1.	खरीद	6		
2.	मिलिंग प्रभार			
3.	भाड़ा	7		
4.	भंडारण लागत	8		
5.	संभाल व्यय	9		
6.	कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक एवं हितलाभ	10		
7.	अन्य व्यय			
8.	निम्न पर मूल्य ह्रास तथा परिशोधन:			
	(क) स्थायी परिसंपत्तियां			
	(ख) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां			
9.	व्याज	11		
10.	पिछले वर्षों से संबंधित आय /(व्यय) (निवल)	12		
	योग (ख)			
11.	व्यय से अधिक आय पर आधिक्य (क-ख)			
12.	कर निर्धारण से पूर्व लाभ / (हानि) घटाएं: कर के लिए प्रावधान (क) वर्तमान कर (ख) आस्थगित कर (ग) पिछले वर्षों से संबंधित कर कर पश्चात लाभ/ (हानि) जिसे लाभ और हानि के समुचित खाते में अंतरित किया गया है।			
13.	घटाएं: खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 33 (1) के तहत आरक्षित निधि में अंतरित। घटाएं: खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 33 (2) के तहत, आरक्षित निधि में स्थानांतरित निवल लाभ के शेष को तुलन-पत्र में अंतरित किया गया।			

फॉर्म 'सी'

(कृपया नियम 19 (1) देखें)

31 मार्च.....को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(लाख रु.में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
I	<p>प्रचालन कार्य कलापों के नकदी प्रवाह कर निर्धारण से पूर्व निवल लाभ/ (हानि) निम्न के लिए समायोजन :- मूल्यहास ऋण मुक्ति व्याज व्यय बट्टे खाते डाला गया ऋण विदेशी विनिमय अंतर बट्टे खाते में डाला गया आस्थिगत राजस्व व्यय संदिग्ध तथा अशोध्य ऋणों, ऋण तथा अग्रिम, जमा तथा अन्य प्राप्य दावों के लिए प्रावधान परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ) व्याज से प्राप्त आय विदेशी विनिमय अंतर</p> <p>कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होने से पूर्व प्रचालन लाभ:- सुरक्षित एवं आधिक्य खाता व्यापार देयताएँ व्यापार प्राप्तियाँ प्रतिदेय जमाएं देय व्याज अन्य देयताएँ दीर्घ अवधि ऋण व अग्रिम, जमाएं और अन्य प्राप्य दावे वस्तु-सूची (इंवेंटरीज) प्राप्य व्यापार अल्प अवधि ऋण व अग्रिम चीनी मूल्य समानीकरण कोष विविध व्यय (बट्टे खाते या समायोजित नहीं किए जाने की सीमा तक) आयकर का अग्रिम भुगतान</p>		
II	<p>प्रचालन कार्यकलापों से सृजित निवल नकद (क) निवेश क्रिया कलापों से नकदी प्रवाह : स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद (ख)</p>		
III	<p>वित्त प्रबंधन कार्य कलापों से नकदी प्रवाह: भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजी भारत सरकार के माध्यम से दीर्घ अवधि उधार बैंकों से प्राप्त ऋण व अग्रिम व्याज व्यय वित्तीय गतिविधियों में उपभोग की गई निवल नकदी (ग)</p>		

IV	नकद तथा नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (घ) = (क +ख+ग) जोड़े वर्ष के प्रारम्भ में नकदी और नकदी समतुल्य		
V	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		

[फा. सं. 8-1/2015-एफ सी-1]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 13 जनवरी, 1965 के सा.का.नि. संख्या 117 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गए तथा पिछला संशोधन दिनांक 6 अप्रैल, 2011 को सा.का.नि. 305(अ) के माध्यम से किया गया है।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2016

G.S.R. 1133(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Corporations Rules, 1965, namely :--

1. (1) These rules may be called the Food Corporations (Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
2. In the Food Corporations Rules, 1965, --
 - (i) in rules 2, for clause (ee), the following clause shall be substituted, namely :--
“(ee) “Form” means a form appended to these rules”;
 - (ii) for rule 19, the following rule shall be substituted, namely:--
“ 19. Annual statement of accounts and balance sheet.-
(1) The annual statement of accounts containing balance sheet in Form ‘A’, statement of profit and loss, account in Form ‘B’ and cash flow statement in Form ‘C’ shall be prepared by the Corporation.
(2) The annual statement of accounts of the Corporation shall be prepared by following the mandatory accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India established under section 3 of the Chartered Accountants of India Act, 1949 (38 of 1949) and any deviation from such accounting standards shall be disclosed as per the provisions of schedule III of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)”;
 - (iii) for Form ‘A’, Form ‘B’ and Form ‘C’, the following shall be substituted, namely:-

“FORM ‘A’

[See rule 19(1)]

FOOD CORPORATION OF INDIA BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH

(Rs. in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Note No.	Figures as at the end of current reporting period	Figures as at the end of previous reporting period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	EQUITY AND LIABILITIES			
A	Shareholders' funds			
	(a) Share capital			
	(b) Reserve and surplus			
	(c) Money received against share warrants			

B	Share application money pending allotment			
C	Non-current liabilities (a) Long-term borrowings (b) Deferred tax liabilities (Net) (c) Other long term liabilities (d) Long term provisions			
D	Current Liabilities (a) Short-term borrowings (b) Trade payables (c) Other current liabilities (d) Short-term provisions			
	TOTAL(A+B+C+D)			
II.	ASSETS			
E	Non-current Assets			
	(a) Fixed assets (i) Tangible assets (ii) Intangible assets (iii) Capital work-in-progress (iv) Intangible assets under Development (b) Non-current investments (c) Deferred tax assets (net) (d) Long-term loans and advances (e) Other non-current assets			
F	Current Assets			
	(a) Current investments (b) Inventories (c) Trade receivables (d) Cash and cash equivalents (e) Short-term loans and advances (f) Other current assets			
	TOTAL(E+F)			
	Significant accounting policies			
	General Notes			

FORM 'B'

(See rule 19(1))

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH

(Rs. in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Note No.	Current Year	Previous Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Income			
1.	Revenue			
	(a) Sale	1		
	(b) Subsidy on Foodgrains	2		
	(c) Other Receipts	3		
2.	Other Income	4		
3.	Accretion/(Decretion) in Inventories	5		
	TOTAL (A)			
B.	Expenditure:			
1.	Purchase	6		
2.	Milling Charges			
3.	Freight	7		
4.	Storage Cost	8		
5.	Handling Expenses	9		
6.	Employees Remuneration and benefits	10		
	Other expenses			
7.	Depreciation and Amortisation on :			
8.	(a) Fixed Assets			
	(b) Intangible Assets			
	Interest			
9.	Income/(Expense) pertaining to prior Years (Net)	11		
10.		12		
	TOTAL (B)			
11.	Excess of Income over Expenditure(A-B)			
12.	Profit/(loss) before tax			
	Less: provision for Tax			
	(a) Current Tax			
	(b) Deferred Tax			
	(c) Tax pertaining to Earlier Years			
13.	Profit after Tax/(Loss) carried down to profit and Loss Appropriation Account			
	Less: Transfer to Reserve Fund under section 33(1) of the Food Corporation's Act, 1964			
	Less: Balance of Net profit transferred to Reserve Fund under section 33(2) of the Food Corporation's Act, 1964			
	carried to the Balance Sheet.			

FORM 'C'

[See rule 19(1)]

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH...**(Rs in lakh)**

Sl. No.	Particular	Current year	Previous year
(1)	(2)	(3)	(4)
I	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES Net profit/(loss) before taxation Adjustments for:- Depreciation Amortisation Interest expense Debts written off Foreign exchange variance Deferred Revenue Expenditure written off Allowances for Bad and Doubtful Debt, Loans and Advances, Deposits and other Claim Receivable Loss/(Profit) on sale of Asset Interest income Foreign exchange variance Operating profit before working capital changes in:- Reserve and Surplus Trade Payable Deposits Repayable Interest Payable Other Payable Long term loans and advances, Deposits and Other Claim Receivables Inventories Trade Receivable Short Terms Loans and Advances Sugar Price Equalisation Fund Miscellaneous Expenditure (To the extent not written off or adjusted) Advance Payment of Income Tax Net Cash generated from operating activities (A)		
II	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES: Sale of Fixed Assets Purchase of Fixed Assets Net Cash used in Investing activities (B)		
III	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES: Capital subscribed by Government of India(GOI) Long term borrowing through GOI Loans and advances from Banks Interest Expense Net cash used in financing activities (C)		

IV	Net Increase in cash and cash equivalents (D)= (A+B+C) Add: Cash and cash equivalents at the beginning of the year.		
V	Cash and cash equivalents at the end of the year”.		

[F. No. 8-1/2015-FC-I]

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 117, dated the 13th January, 1965 and last amended by vide number G.S.R. 305(E), dated the 6th April, 2011.